



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

No. 373]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

संस्कृति मंत्रालय

(विशेष प्रकोष्ठ)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

फा. सं. 30-1/2016-विशेष प्रकोष्ठ (भाग).—दिनांक 19 अक्तूबर, 2016 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से गुरु गोबिन्द सिंह जी की 350वीं जयंती मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति (एनसी) के सदस्यों के नामों को दर्शाने वाली सूची के आंशिक आशोधन में, निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :-

- (i) क्र. सं. 35 पर, श्री स्वप्न दास गुप्ता के स्थान पर **श्री स्वप्न दास गुप्ता, संसद सदस्य (राज्य सभा) नामित** पढ़ा जाए।
- (ii) श्री तरलोचन सिंह, पूर्व अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के नाम का क्रम संख्यांक 36 और 43 पर दो बार उल्लेख किया गया है। अतः क्रम संख्या 43 का लोप किया जाता है।

शेफाली शाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

(Special Cell)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th December, 2016

F. No. 30-1/2016-Spl. Cell (Pt.).—In partial modification of the List indicating the names of members of the National Committee (NC), constituted to commemorate the 350th Birth Anniversary of Guru Gobind Singhji vide notification of even no. Dated 19th October, 2016, the following corrections have been made:

- (i) At Sl. No. 35, Shri Swapan Das Gupta may be read as **Shri Swapan Das Gupta, MP (RS) Nominated.**
- (ii) The name of Shri Tarlochan Singh, Former Chairman, Minority Commission has been mentioned twice at Sl. Nos. 36 and 43. Therefore Sl. No. 43 stands deleted.

SHEFALI SHAH, Jt. Secy.

5861 GI/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok
Kumar Paria

Digitally signed by Nishok Kumar
Paria
Date: 2016.12.23 19:25:27 +05'30'